



BAL BHARATI PUBLIC SCHOOL, PITAMPURA, DELHI – 110034

CLASS V

Session 2024-25

Syllabus for Annual Examination

Max Marks: 50

Duration: 2 hours

Subject	Syllabus
ENGLISH Annual Exam	<p>Coursebook:</p> <p>Lesson 10: The Road Not Taken (Poem) Lesson 12: Adrift at Sea Lesson 15: Joseph and the Truth Stick</p> <p>Grammar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Simple and Continuous form of Tenses• Perfect form of Tenses (Present and Past)• Transformation of Sentences• Articles• Punctuation
हिंदी Annual Exam	<p>पाठ्यपुस्तक - नई आशाएँ</p> <p>पाठ - 10 नंदिनी की डायरी से पाठ - 11 कनकलता बरुआ पाठ - 15 करामाती टोपी</p> <p>व्याकरण - मधुर हिंदी व्याकरण</p> <ol style="list-style-type: none">1) विलोम शब्द (पाप से सौभाग्य तक)दूसरा खंड2) पर्यायवाची शब्द (1-15)3) क्रिया तथा उसके भेद4) श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द (1- 10)5) अपठित गद्यांश6) मुहावरे (1-10) केवल अर्थ

TOPIC: Multiples and Factors

Sub topics:

- Observing number patterns in relation to multiples and factors and generalizing their properties.
- Developing the skill to apply the concept of multiples and factors in the given situation.
- Common factors and common multiples (HCF and LCM)
- Identifying the prime, composite, coprime and twin prime numbers.
- Finding the prime factors of any given number (Prime Factorization).

TOPIC -Whole and Parts

Sub topics:

- Understanding the concept of fraction both as a part of a whole and as a part of a collection.
- Understanding equivalent fractions.
- Generating many fractions equivalent to a given fraction.
- Converting a fraction into its lowest term.
- Comparison of fractions.
- Arranging the given fractions in ascending as well as descending order.
- Classifying fractions into unit, proper, improper and mixed fractions.
- Converting improper fraction into mixed fraction and vice versa
- Add and subtract the given fractions.
- Solving simple real life situations involving fractions.
- Multiplication of a whole number by a fraction.

TOPIC - Decimal Fractions

Sub topics:

- Understanding about decimals.
- Relation between fraction and decimals.
- Expressing a given fraction into decimal notation and vice versa.
- Reading and writing decimal numbers.
- Expanding the decimal numbers for showing the place value of the digits.
- Identifying and forming equivalent decimals of a given decimal.
- Comparing and arranging the given decimal numbers in ascending and descending order.

<p>Social Science Annual Exam</p>	<p>Topic: The United Nations</p> <p><u>Sub topics:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Formation of the UN• Objectives• Organs• Agencies• Achievements• India and the UN <p>Topic: Towards Freedom</p> <p><u>Sub topics:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Traders from the west• Discontent among Indians• Revolt against the British• Social and religious reformers• Rise of nationalism• Formation of INC <p>Topic: India wins Freedom</p> <p><u>Sub topics:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Mahatma Gandhi- Timeline• Freedom movement• Contribution of leaders
<p>Science Annual Exam</p>	<p>TOPIC: Our Life Supports</p> <p><u>Sub topics:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Water Too Supports Life• Purification of Drinking Water. <p>TOPIC: Solids, Liquids and Gases</p> <p><u>Sub topics:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• What is Matter?• Molecules are made up of atoms• More about Molecules• Solids in water

	<ul style="list-style-type: none"> • Liquids in water • Gases in water • Heating and Cooling <p>TOPIC: Our Skeletal System</p> <p><u>Sub topics:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Organization of the human body • The Skeleton • Joints • Muscles and Movements
<p>GK Annual Exam</p>	<p><u>Textbook- Do You Know? (Cambridge University Press)</u></p> <p>Topics:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Superheroes 2. Books for You 3. Odd one Out 4. Creative Awards 5. Parts of a Book 6. Proverbs 7. Indian Languages 8. Idioms 9. Synonyms 10. Sports Terminology 11. Commonwealth Games 12. Sports Prodigies
<p>COMPUTER Annual Exam</p>	<p>PRACTICAL (Only Practical assessment will be done)</p> <p>Topic- EXCEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entering data in cells. • Formatting of data. • Using AutoSum and AutoFill features